

FDR

# Schedule XLV-Form No. 134

RWD(LND)KISHANGHANI-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

MB 100-1183

**MEASUREMENT BOOK**

LOST - TO 3 TO CHITAGHON

प्रमाणित किया जाता है कि इस में प्रामाणिकता है।  
(ए.क.सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ है जो Shamee Ramu Prasad  
सहायक अभियंता, ए.क. वि. कार्य अवर प्रमण्डल... Pothia  
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कायपालक अभियंता  
आ.क.वि. कार्य प्रमण्डल  
किसानगंज-2  
19/11/19

Sch. XLV—Form No. 134

RWD(WD)KNE-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 1183

Name of Officer Shamee Ramu Prasad

A.E. RWD POTHIA

Date of first entry \_\_\_\_\_

Date of last entry \_\_\_\_\_

# 1st on AIC Bill

## Detailed Measurement

Name for work—

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

| Particulars                 | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                             | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| NIW - F.D.R. Road from L057 |                               |    |    |    |                  |
| To 3 to Whiyegam under      |                               |    |    |    |                  |
| Polting Block.              |                               |    |    |    |                  |
|                             |                               |    |    |    |                  |
| Agency - Dept               |                               |    |    |    |                  |
| Date of Entry - 5-01-2021   |                               |    |    |    |                  |
| (1)                         |                               |    |    |    |                  |
|                             |                               |    |    |    |                  |
|                             |                               |    |    |    |                  |

(1) Continuation of abstract  
with mutually check  
all

$$\begin{aligned}
 & - 1 \times 30.00 \times \frac{7.00 + 5.50}{2} \times 2.35 = 440.63 \text{ m}^3 \\
 & - 1 \times 12.00 \times \frac{6.50 + 6.00}{2} \times 2.35 = 176.25 \text{ m}^3 \\
 & \quad \quad \quad 616.88 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

(2) Boundary 62 mm dia 25 mm  
di barbed mesh check

$$\begin{aligned}
 & - 110 \text{ No} \times 2.30 = 253.00 \text{ Run} \\
 & - 15 \text{ m} \times 2.10 = 31.50 \text{ Run} \\
 & \quad \quad \quad 284.50 \text{ Run}
 \end{aligned}$$

(3) Boundary 62 mm 75 mm dia barbed  
Runing check

$$\begin{aligned}
 & - 4 \times 28.00 = 112.00 \text{ Run} \\
 & - 4 \times 2.30 = 9.20 \text{ Run} \\
 & - 4 \times 1 \times 25 = 100.00 \text{ Run}
 \end{aligned}$$

Continuation

$$457.00 \text{ Run}$$

[illegible]

Continuation



| Particulars                                         | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                                                     | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| (1) Constn to abkinsth<br>about mchls abdo          |                               |    |    |    |                  |
| Dy wh shalo (1) P-1 u-e                             |                               |    |    |    |                  |
| 616.88 m <sup>3</sup>                               |                               |    |    |    |                  |
| Qm 189.45/m <sup>3</sup> — m                        |                               |    |    |    | 116867200        |
| (2) Prochis al culty ab                             |                               |    |    |    |                  |
| 62mm to 75mm abg bamboo                             |                               |    |    |    |                  |
| hells dabo                                          |                               |    |    |    |                  |
| Dy wh shalo (2) P-1 u-e                             |                               |    |    |    |                  |
| 284.50 Rm                                           |                               |    |    |    |                  |
| Qm 50.20/m — m                                      |                               |    |    |    | 14282200         |
| (3) Prochis al culty 62mm 75mm                      |                               |    |    |    |                  |
| du bamboo Rmng abdo                                 |                               |    |    |    |                  |
| Dy wh shalo (3) P-1 u-e                             |                               |    |    |    |                  |
| 452.00 Rm                                           |                               |    |    |    |                  |
| Qm 28.53/Rm — m                                     |                               |    |    |    | 12896200         |
| (4) Prochis long Spand Bndd Bly                     |                               |    |    |    |                  |
| in Rm dabo                                          |                               |    |    |    |                  |
| Dy wh shalo (4) P-2 u-e                             |                               |    |    |    |                  |
| 324.45 m <sup>3</sup> Qm 2145.02/m <sup>3</sup> — m |                               |    |    |    | 695952200        |
| (5) Prochis al jully culty Camet                    |                               |    |    |    |                  |
| begs with local sm dabo                             |                               |    |    |    |                  |
| Dy wh shalo (5) P-2 u-e                             |                               |    |    |    |                  |
| 4981 begs @ 38.14/Rm — m                            |                               |    |    |    | 189975200        |
|                                                     |                               |    |    |    | 1029972200       |
| Adm 12% GST — (+)                                   |                               |    |    |    | 123597200        |
| Adm 1% Labur cost (+)                               |                               |    |    |    | 10300200         |
| Adm Seizange ke (+)                                 |                               |    |    |    | 10000200         |
|                                                     |                               |    |    |    | 1173869200       |

Continuation

EXECUTIVE ENGINEER  
RWD, WORKS DIVISION  
KISHANGANJ-2

Date  
5.1.2024  
TE